

## सबसे अच्छा समय, सबसे खराब समय

### संदर्भ

देश में चल रहे किसान आंदोलन ने एक हसिक रूप धारण कर लिया है। ये आंदोलन एक वरिधाभास को भी जन्म देते हैं कएक अच्छी पैदावार के बावजूद भी किसान ऐसे उग्र-आंदोलन करने पर क्यों उतारू हैं? लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कबिम्पर फसल के बाद कीमतों में गरिवट उपभोक्ताओं के लिये तो एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन किसानों के लिये नहीं।

### समस्या क्या है?

- भारतीय कृषि के साथ समस्या यह है कहिम आज भी 1970 के दशक की हरति क्रांति के साथ चपिके हुए हैं जो मुख्य रूप से एक चावल और गेहूं की क्रांति मानी जाती है, क्योंकि इसने भारतीय कृषि की दो तहियाँ फसलों, दाल और मोटे अनाजों की उपेक्षा की है।
- इस क्रांति के बारे में कुछ भी 'ग्रीन' नहीं है, क्योंकि इसने एक तरफ कृषि में अस्थिरता को बढ़ावा दिया तो दूसरी तरफ पर्यावरणीय संकट पैदा किया। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग ने हमारी मटिटी और पानी पर बहुत घातक प्रभाव डाला है।
- जल-गहन फसलों के उत्पादन ने ट्यूबवेलों द्वारा डीप ड्रिलिंग को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण गंभीर जल संकट की समस्या उत्पन्न हुई और 'वाटर लेवल' एवं 'पानी की गुणवत्ता' में तेजी से गरिवट आई। पीने के पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड, पारा और यहाँ तक कथूरेनियम की मात्रा बढ़ गई है, जिसने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दिया है।
- इससे भी बदतर स्थिति यह है कउत्पादन में अधिक वृद्धि प्राप्त करने के लिये किसानों द्वारा अधिक से अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुए बनि कृषि लागत में नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही है।
- वमिद्रीकरण के कारण किसानों के उत्पादों को खरीदने के लिये व्यापारियों के पास आवश्यक नकद की कमी हो गई थी। इस समस्या के कारण भी वभिन्न राज्यों में किसान आंदोलनों को बढ़ावा मिला।
- किसानों का यह भी मानना है कभरपूर कृषि उत्पादन के बावजूद सरकार कृषि उत्पादों के आयात को जारी रखे हुए है जिससे कीमतों में और गरिवट आएगी और अंततः नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ेगा।
- ध्यातव्य है कपिछले दो दशकों में लगभग तीन लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं।

### हम किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं और आंदोलनों को दूर करने के लिये क्या-क्या उपाय कर सकते हैं?

- हमें अधिक से अधिक पारस्थितिकीय कृषि या जैविक कृषि को अपनाने की आवश्यकता है। यह जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भी जरूरी है। बड़े पैमाने पर प्रमाण मौजूद है कगैर-रासायनिक कृषि एक लाभदायक विकल्प बन सकता है।
- जैसे ही किसान सथिटिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे वैसे ही उत्पादकता से समझौता कथि बनि खेती की लागत में नाटकीय रूप से कमी आ सकती है।
- देश में पारस्थितिकीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकार को एक व्यापक सब्सिडी पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
- किसानों को सचिाई के लिये पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये हमें सतह और भूजल दोनों के प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुये केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय एक 'नए मॉडल भूजल वधियक' लाने की दशिा में आगे बढ़ रही है, ताकबिहुमूल्य जल-संसाधन का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।
- हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नरितर वविधिकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस दशिा में पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एक कारगर कदम हो सकता है।
- हमें पानी गहन, चावल और गेहूं की कृषि से ध्यान को हटाना चाहिये और कम जल आवश्यकता वाली दाल और मोटे अनाज जैसी फसलों की तरफ ध्यान देना चाहिये। उल्लेखनीय है कथे फसलें पोषक तत्त्वों से भरपूर होती हैं, जिससे देश के गरीब तबके के लोगों की प्रोटीन संबंधी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है।
- चावल और गेहूं के साथ-साथ सरकार को दाल और मोटे अनाजों की भी व्यापक खरीद सुनिश्चित करनी चाहिये। एक अच्छा तरीका यह भी हो सकता है कआंगनवाड़ी और मडि-डे मील जैसे कार्यक्रमों में दाल और मोटे अनाजों को शामिल किया जाए।
- कृषि प्रसंस्करण उधोगों से संबंधित बुनियादी ढाँचे में नविश बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है ताककिसानों की आय और रोजगार दोनों बढ़ाये जा सके।
- हमें देश के लगभग 85 फीसदी छोटे और सीमांत किसानों की ऋण और फसल बीमा तक पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- हमें किसानों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने एवं उन्हें जागूक करने के लिये 'किसान नरिमाता संगठन' (Farmer Producer Organisation) बनाने की आवश्यकता है ताककिसान बाजारों से उचित और वास्तविक लाभ उठा सके।

### नषिकरष

यह सही है कहिंसा हमें कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकती, लेकिन यह कृषि-नीति में तुरंत सुधार करने की तरफ इशारा जरूर करती है। अगर हम चाहते हैं क

कसिनॉं का संकट ँक अतीत की बात बन जाए तो हमें ँक व्‍यापक कृष नीत बिनाने की आवश्यकता है और ँसी नीत बिनाने के समय सभी हतिधारकों को शामिल किया जाए ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-best-of-times-the-worst-of-times>

